



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आषाढ़ 1945 (श10)

(सं0 पटना 566) पटना, बुधवार, 12 जुलाई 2023

कृषि विभाग

अधिसूचना

28 जून 2023

सं० 2 (गो०)सी०-6-4/2011-334/कृ०—जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के ज्ञापांक-1884, दिनांक-25.08.2011 द्वारा श्री राम गोपाल पाण्डेय (बिहार कृषि सेवा, कोटि-1 (शष्य), वर्ग-2) तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के टीम द्वारा दिनांक 25.08.2011 को 15000/- रुपये अपने कार्यालय कक्ष में घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने की सूचना प्रतिवेदित किया गया।

उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-533 दिनांक 29.08.2011 द्वारा श्री पाण्डेय को दिनांक 25.08.2011 से कारावास में रहने की अवधि तक के लिए निलंबित किया गया।

श्री पाण्डेय के विरुद्ध विभाग द्वारा गठित आरोप प्रपत्र 'क' में निम्न प्रतिवेदित आरोप—(1) दिनांक 25.08.2011 को श्री चन्दन कुमार से 15000/- रुपये घूस लेते निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाना (2) श्री पाण्डेय का यह कार्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 (1) के प्रावधानों के प्रतिकूल कार्य करना। (3) कृषि यांत्रिकरण योजना/मैक्रोमोड योजना 2009-10 के अन्तर्गत कृषकों को अनुदानित दर पर वितरित पावर टीलर एवं ट्रैक्टर अनुदान में अनियमितता बरतने एवं ससमय अनुदान राशि का भुगतान नहीं करना एवं अन्य आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक संकल्प संख्या-621 दिनांक 20.10.2011 एवं विभागीय संकल्प संख्या-483 दिनांक- 31.12.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

दिनांक 30.11.2011 को कारावास से मुक्त होने के पश्चात विभागीय आदेश ज्ञापांक 7895 दिनांक 12.12.2011 द्वारा श्री पाण्डेय का योगदान दिनांक 01.12.2011 के प्रभाव से स्वीकृत करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 715 दिनांक 21.12.2011 द्वारा योगदान स्वीकृति की तिथि से दिनांक 01.12.2011 के पूर्वाहन के प्रभाव से पुनः निलंबित किया गया।

सी०डब्लू०जे०सी०सं०-10955/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.2016 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 647 दिनांक 26.12.2016 द्वारा श्री पाण्डेय को निलंबन से मुक्त किया गया।

श्री पाण्डेय की दिनांक-28.02.2021 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप विभागीय आदेश संख्या-171 दिनांक 24.03.2021 द्वारा उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम-43 (बी) के अन्तर्गत सम्पत्तिवर्तित किया गया।

प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग-सह-जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक 27 दिनांक 03.02.2023 द्वारा संचालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना काण्ड संख्या-58/2011 सम्प्रति निगरानी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन आरोप संख्या-01 को छोड़कर सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक 128 दिनांक 20.02.2023 द्वारा श्री पाण्डेय के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियामवली 2005 के नियम-18 के तहत लिखित अभिकथन/द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

तदनुसार श्री पाण्डेय के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन लिखित अभिकथन/द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत आरोप की गंभीरता को देखते हुए बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-139 के संगत प्रावधानों के तहत स्थायी रूप से शत प्रतिशत पेंशन कटौती का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार विभागीय पत्रांक 245 दिनांक 04.05.2023 द्वारा श्री पाण्डेय के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-139 के संगत प्रावधानों के तहत स्थायी रूप से शत प्रतिशत पेंशन कटौती का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अनुशंसा/परामर्श का अनुरोध किया गया।

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 1094 दिनांक 17.06.2023 द्वारा श्री पाण्डेय के विरुद्ध विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

तदालोक में श्री राम गोपाल पाण्डेय (बिहार कृषि सेवा, कोटि-1 (शष्प), वर्ग-2) तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध 15000/- रुपये रिश्त लेते रंगे हाथ पकड़े जाने एवं अन्य आरोपों के परिपेक्ष्य में बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-139 के संगत प्रावधानों के तहत स्थायी रूप से शत प्रतिशत पेंशन कटौती करने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त परामर्श से सहमत होते हुए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राम गोपाल पाण्डेय (बिहार कृषि सेवा, कोटि-1 (शष्प), वर्ग-2) तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-139 के संगत प्रावधानों के तहत स्थायी रूप से शत प्रतिशत पेंशन कटौती का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
बिपिन कुमार सिंह,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 566-571+10-डी0टी0पी0  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>